

कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- मेरठ ।
प्रमाण-पत्र

पत्रांक.-९५६ / ग्रा०अ०वि० / नेश०वि०को० / २०२१-२२ / दिनांकः १४-०४-२०२१

१. विद्यालय का नाम :- मेरठ पब्लिक स्कूल, गर्ल्स विंग, 233, वेस्ट एण्ड रोड, मेरठ कैंट, जिला मेरठ।
२. विकास खण्ड :- रथानीय।
३. पहुँच मार्ग :- है।
४. सेट वैक :- उपलब्ध है।

उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कार्य तीन मंजिल का पूर्ण है। संरथा द्वारा उपलब्ध करायी गई आर्काइवटस इंजीनियर्स की ड्राइंग के आधार पर विद्यालय में शिक्षण कक्षों का निर्माण मानकों के अनुसार किया गया है। शारान द्वारा निर्गत सुरक्षा सम्बन्धी विन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार विद्यालय का भवन प्रथम दृष्टया निर्माण नेशनल विल्डिंग कोड के अनुरूप है।

अवर अभियन्ता (रजपत्रित)
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,
प्रखण्ड-मेरठ।

१०४००/-
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड - मेरठ

(5) (13)

प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि

सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ख) दो मंजिला से अधिक किन्तु 15 मीटर से कम ऊचे भवनों हेतु चेकलिस्ट

प्रैटप्रैमिक इक्लिप, गल्सीविंग, २३३ वेरैफ़ॉर्ड रोड मैरिट मैरिट

फ्रॉक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकों परिनु	जांच आव्याह तीन अंकिलां
1.	भवन में कुल कितनी मजिसें (रस) हैं?	तीन अंकिलां
2.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर (4000 वर्ग मीटर) है?	yes
3.	क्या भवन में घास याकिंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में याकिंग तो नहीं है?	yes
4.	क्या भवन का ओपरेटर ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का साफ्टलैरेट है?	yes
5.	क्या मुख्य पहुंच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है?	yes
6.	क्या भवन को छत आर०सी०सी० की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में जलनरोल सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	yes
7.	क्या भवन को दीयाँ/इंट मा पत्थर की सीमेन्ट मंसाले से बनी है?	yes
8.	क्या भवन को दीयाँ/छतों में यैंक है?	no
9.	क्या कक्षों की छतों की ऊंचाई फर्मा से न्यूनतम 3.6 मीटर (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मीटर) है?	yes
10.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (ब्राउण्डीबल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊंचाई 4.5 मीटर है?	yes
11.	क्या खिड़कियां का क्षेत्रफल कक्ष के फर्मा क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है?	yes
12.	क्या कक्षों में लफड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	yes
13.	क्या कक्षों के दरवाजों की न्यूनतम भाष्य (चौड़ाई 1.0 मीटर ऊंचाई 2.0 मीटर) है?	yes
14.	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टेपर फेस (जोने) का प्राविधिक है?	yes
15.	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० दृढ़ 300 मिमी० तथा गहरा 150 मिमी० है?	yes

अग्नि अभियन्ता (राज्यांतिक)
प्रामाण अभियन्ता विभाग,
प्रद्युम्ना।

संहायक अभियन्ता
प्रामाण अभियन्ता विभाग
प्रद्युम्ना - १००५

		(36) Yes
16.	क्या भवन के कक्षों से जीवे की अधिकतम दूरी 22.50 मीटर है?	yes
17.	इया भवन के फ्लोरों की कंपार्श न्यूनतम 2400 मिमी है?	yes
18.	इया भवन में न्यूनतमातील परार्थ (एट्रोट/डीबल, फैटेसीन, कुकिंग गैस पुराना फर्नीचर लकड़ी, फोयला, चास आदि) पुण्य भवन में रखने की व्यवस्था है?	yes -
19.	इया भवन में रतोई पर मुख्य भवन से भलग है?	yes
20.	इया भवन में कोई न्यूनतमातील परार्थ अवश्य बहारीला रसायन रखा जाता है?	-
21.	इया भवन को जातरिक फिनिश में रीफ्रेन्स न्यूनतमातील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?	-
22.	इया भवन में शिक्कलोगों हेतु ऐप की ओरार्ड न्यूनतम 1500 मिमी तथा स्लोप अधिकतम 1.12 है?	yes
23.	इया भवन की मीदिया छत पर सूलती है?	yes
24.	इया भवन में मुख्य द्वार के अविरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?	yes

<u>विद्युत व्यवस्था चेकलिस्ट</u>		
25.	इया भवन से विद्युत की घोलटेल साइन की न्यूनतम पर्टीकल कंपार्श 25 मीटर एवं होटेलेन्ट 1.2 मीटर है?	yes
26.	इया भवन से विद्युत की हाई घोलटेल साइन (11000 घोलट या अधिक) की न्यूनतम पर्टीकल कंपार्श 3.70 मीटर है एवं होटेलेन्ट 2.0 मीटर है?	yes
27.	इया पुण्यनी विद्युत वायरिंग स्थित एवं भव्य इंजिनियरमेंट (SI) यार्ड सामग्री द्वारा बदले गये हैं?	yes
28.	इया भवन का विद्युत मीटर फाई तथा जेनरेटर कस मुख्य भवन में स्थित है?	yes

	<u>अग्नि सुरक्षा संबंधी चेकलिस्ट</u>	
29.	इया विधालय में भवन, छाँड़ों तथा अध्यारकों का आप एवं रैकीय आपदाओं से सामुदाइक दीप्ति कराया गया है?	आग्नि सुरक्षा पुष्पाभ्यन्तर रालिया अध्यादेश
30.	इया भवन में अग्निरासक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automello Sprinkler System) उपित्र स्थान पर लगे हैं?	आग्नि सुरक्षा पुष्पाभ्यन्तर रालिया अध्यादेश
31.	इया भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एस्लान्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	आग्नि सुरक्षा पुष्पाभ्यन्तर रालिया अध्यादेश
32.	इया भवन में उपपुष्ट घासों पर प्राप्तिमिक चिकित्सा घास (Plum Aid Box) स्थापित है?	आग्नि सुरक्षा पुष्पाभ्यन्तर रालिया अध्यादेश

ERGONIC DESIGN
AEREO MRTI

AEREO
राष्ट्रीय अभियन्ता
प्राणीन अभियन्त्रण दिवाना
प्रतिष्ठा - नं. ३